

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

**RAJYA SABHA**  
**UNSTARRED QUESTION NO. 282**  
(TO BE ANSWERED ON 08.12.2022)

**VACANT POSTS OF SECTION OFFICERS IN CSS**

**282 SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA:**

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a body representing the Central Secretariat Service officers has written to the Department that around 45 per cent posts of Section Officers of CSS are lying vacant because many officers have not been promoted since 2013;
- (b) whether it is also a fact that the Prime Minister had announced in June that the existing 10 lakh vacancies in Central Government Departments will be filled in mission mode till 2023; and
- (c) if so, the present status in this regard?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE  
(DR. JITENDRA SINGH)**

(a): There is an overall shortage of officers in the grade of Section Officers of Central Secretariat Service (CSS). As of July 2022, over 8000 Central Secretariat Service (CSS), Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) and Central Secretariat Clerical Service (CSCS) officers have been promoted, and pendency since 2013 have been cleared paving way for promotions at a large scale. Only vacancies that are subjudice, are pending subject to final decision.

(b) & (c): As part of Mission Recruitment, Rozgar Mela being held across the country, over 1.47 lakh new appointees were inducted in various posts across Central Ministries/Departments/PSUs/Autonomous bodies/Banks etc., so far.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 282

(दिनांक 08.12.2022 को उत्तर के लिए)

**केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों के रिक्त पद**

**282. श्री सुशील कुमार गुप्ता :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निकाय ने विभाग को लिखा है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारियों के लगभग 45 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं क्योंकि वर्ष 2013 से कई अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि प्रधानमंत्री ने जून में घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार के विभागों में मौजूदा 10 लाख रिक्तियों को 2023 तक युद्ध स्तर पर भरा जाएगा; और
- (ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क): केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में अधिकारियों की समग्र कमी है। जुलाई 2022 तक, 8000 से अधिक केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है और 2013 से लंबित मामलों का निपटारा करते हुए बड़े पैमाने पर पदोन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। केवल वे रिक्तियां अभी लंबित हैं जो न्यायाधीन हैं और ये अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन हैं।

(ख) और (ग): मिशन भर्ती के भाग के रूप में, देश भर में आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/बैंकों आदि में अब तक विभिन्न पदों पर 1.47 लाख से अधिक नए कर्मी भर्ती किए गए हैं।

\*\*\*\*\*